

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३९] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी १, १९६९/माघ १२, १८९०

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 1969/MAGHA 12, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February 1969

S.O. 458.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 56/69-II (S.O. 89), dated the 4th January, 1969, namely :—

In table 3, against the entry "22. Pondicherry" for the entries "(5) Two leaves and (6) Lion", the entries "(5) Two leaves, (6) Lion and (7) Rising Sun" shall be substituted.

[No. 56/69-IV.]

By order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

